



प्रेसनोट थाना खंदौली जनपद आगरा।

थाना खंदौली पुलिस टीम द्वारा कैण्टर में भरी शराब की 150 अवैध पेटी सहित अन्य सामान किया गया बरामद...

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार चोरी/लूट, डकैती, अवैध शराब की तस्करी करने व परिवहन निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी एत्मादपुर के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खंदौली को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 18.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा मिली कि एक कैण्टर नं0 UP 92 T 0137 यमुना एक्सप्रेस वे पर इण्टर चेन्ज से आगे काफी समय से खराब स्थिति में खड़ा हुआ है जिसमें कैण्टर के ड्राइवर की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जो पुलिस को देख कैण्टर से उतर के भागा पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया परन्तु कैण्टर चालक अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुनः पुलिस टीम कैण्टर पर पहुंची जहाँ कैण्टर में ऊपर से दिखाने के लिए फोम के गद्दे रखे हुए है व गद्दों के नीचे अवैध शराब की पेटियां रखी हुयी थी।

➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा कैण्टर की तलाशी लेने पर उसमें 150 पेटियाँ अवैध शराब जिनमें 70 पेटी (कुल 840 बोतल) मिडनाइट ब्लू मेट्रो लिकर, 80 पेटी (3840 पब्बे) व एक अदद कैण्डर नं0 UP 92 T 0137 को दिनांक 18.07.2021 को समय 21.00 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे पर 153 कि०मी० से पहले स्थान से बरामद किया।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. चालक का नाम पता अज्ञात।

➤ बरामदगी का विवरण:-

01. 70 पेटी (कुल 840 बोतल) मिडनाइट ब्लू मेट्रो लिकर, 80 पेटी (3840 पब्बे)।

02. 1 कैण्टर।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ०नि० ललित कुमार थाना खन्दौली जनपद आगरा।

02. उ०नि० राहुल कटियार थाना खन्दौली जनपद आगरा।

03. का० अनिल यादव, का० पंकज तालान थाना खन्दौली जनपद आगरा।



मीडिया सेल जनपद आगरा

